



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 पौष 1946 (श0)

(सं0 पटना 9) पटना, शुक्रवार, 3 जनवरी 2025

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

1 जनवरी 2025

सं० 01—स्था० क्षेत्र 313/2015—06—भारत संविधान के अनुच्छेद—309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल “गन्ना उद्योग विभाग के अराजपत्रित संवर्ग के (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली—2016” में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ — (i) नियमावली “गन्ना उद्योग विभाग अराजपत्रित संवर्ग के (भर्ती एवं सेवा शर्तों) संशोधन नियमावली—2024 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. गन्ना उद्योग विभाग अराजपत्रित संवर्ग के (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2016 के नियम—9 का संशोधन।— उक्त नियमावली के नियम—9 को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है—

“9. सम्पुष्टि।— सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की सेवा परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने, निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने तथा यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त सम्पुष्टि की जा सकेगी।”

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
बी कार्तिकेय धनजी,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 09-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>